

**DIPLOMA IN WATERSHED MANAGEMENT  
(DWM)****Term-End Examination****February, 2021****BNRI-106 : HORTICULTURE AND  
AGROFORESTRY SYSTEM***Time : 2 hours**Maximum Marks : 50*

---

**Note :** Attempt any *five* questions. All questions carry equal marks.

---

1. Discuss any *five* terms from the following :  $5 \times 2 = 10$ 
  - (a) Preservation
  - (b) Blanching
  - (c) Green manure
  - (d) Intercropping
  - (e) Indigenous Traditional Knowledge
  - (f) Participatory Rural Appraisal (PRA)
2. (a) Discuss Contour and Terrace systems of orchard layout. 5  
(b) Describe the role of micronutrients in the production of fruit and vegetable crops. Also give suitable examples. 5

3. (a) Discuss major insect-pests of cabbage and cauliflower. 5
- (b) Explain the major problems in Jelly making. 5
4. (a) Discuss preparation of Marmalade. 5
- (b) Explain general methods of drying fruits and vegetables. 5
5. (a) Discuss major benefits of standardization of fruits and vegetables. 5
- (b) Describe medicinal uses of five medicinal plants. 5
6. (a) Discuss the important factors influencing fruit and vegetable marketing. 5
- (b) What is packaging ? Discuss the important packaging methods of fruits and vegetables. 2+3
7. (a) Discuss types of low cost and low energy greenhouses. 5
- (b) Describe environmental and economic benefits of Agroforestry. 5
8. Write short notes on any **two** of the following :  $2 \times 5 = 10$
- (a) Plastic low tunnels
- (b) Mist Chamber
- (c) Thinning
-

## जलसंभर प्रबंधन में डिप्लोमा

(डी.डब्ल्यू.एम.)

सत्रांत परीक्षा

फरवरी, 2021

बी.एन.आर.आई.-106 : उद्यानिकी और कृषिवानिकी तंत्र

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

---

1. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शब्दों की चर्चा कीजिए :  $5 \times 2 = 10$

(क) परिरक्षण

(ख) ब्लांचिंग (Blanching)

(ग) हरी खाद

(घ) अंतर्वर्ती फ़सलें

(ङ) स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान

(च) सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.)

2. (क) फलोद्यान (बगीचे) के अभिन्यास की समोच्च और सीढ़ीदार प्रणालियों की चर्चा कीजिए ।

5

(ख) फलों और सब्जियों के उत्पादन में सूक्ष्म-पोषक-तत्त्वों की भूमिका का वर्णन कीजिए । उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए ।

5

3. (क) फूलगोभी और पत्तागोभी के प्रमुख कीट-पीड़िकों की चर्चा कीजिए। 5  
 (ख) जेली बनाने में प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। 5
4. (क) मार्मलेड तैयार करने की चर्चा कीजिए। 5  
 (ख) फलों और सब्जियों को सुखाने की सामान्य विधियों की व्याख्या कीजिए। 5
5. (क) फलों और सब्जियों के मानकीकरण के प्रमुख लाभों की चर्चा कीजिए। 5  
 (ख) पाँच औषधीय पौधों के औषधीय उपयोगों का वर्णन कीजिए। 5
6. (क) फलों एवं सब्जियों के विपणन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा कीजिए। 5  
 (ख) पैकेजिंग क्या है ? फलों एवं सब्जियों की महत्वपूर्ण पैकेजिंग विधियों की चर्चा कीजिए। 2+3
7. (क) कम कीमत और कम ऊर्जा वाले हरितगृह के प्रकारों की चर्चा कीजिए। 5  
 (ख) कृषिवानिकी के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों का वर्णन कीजिए। 5
8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :  $2 \times 5 = 10$   
 (क) प्लास्टिक की नीची सुरंगें  
 (ख) धुँध कक्ष  
 (ग) विरलन
-